



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19, 1977/फाल्गुन 28, 1898

No. 133] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19, 1977/PHALGUNA 28, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March 1977

**S.O. 246(E).**—In exercise of the powers conferred by section 33 of the 33 of the Disputed Elections (Prime Minister and Speaker) Ordinance, 1977 (4 of 1977), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Disputed Elections (Prime Minister and Speaker) Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Chairman” and “Vice-Chairman” mean Chairman and Vice-Chairman of a Council;
- (b) “Council” means a Council convened under section 4;
- (c) “Election Commission” means the Election Commission appointed by the President under article 324 of the Constitution;
- (d) “Form” means Form annexed to these rules,

- (e) "member" means a member of the Council,
- (f) "Ordinance" means the Disputed Elections (Prime Minister and Speaker) Ordinance, 1977 (4 of 1977),
- (g) "President" means the President of India;
- (h) "Registrar" means the person designated as such by the Election Commission,
- (i) "section" means a section of the Ordinance, and
- (j) words and expressions not defined herein but defined in the Ordinance have the meanings respectively assigned to them in the Ordinance.

**3 Steps for convening a Council.**—(1) As soon as may be after a petition is presented under section 8, the Election Commission shall, for the purpose of convening a Council under sub-section (1) of section 4, make a request in writing to the Central Government to take such action as may be necessary in pursuance of the provisions of that section.

(2) After the nomination or, as the case may be, election of the members referred to in sub-section (2) of section 4, the Central Government shall make a request to the President to appoint the Chairman and Vice-Chairman from amongst such members.

(3) The Central Government shall communicate the names of the Chairman and Vice-Chairman and other members to the Election Commission, and thereupon the Election Commission shall, by notification in the Official Gazette, convene the Council.

**4. Conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and other members:—**

(1)(a) If the person appointed as Chairman is a serving Chief Justice of the Supreme Court, he will discharge the duties of the Chairman in addition to his duties as Chief Justice and will not draw any remuneration for working as Chairman of the Council

(b) For the journeys performed by the serving Chief Justice in connection with the work of the Council, he will draw travelling allowance and daily allowance in accordance with the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959

(2)(a) If the person appointed as Chairman is a retired Chief Justice of the Supreme Court, he shall be entitled to a salary at the rate of five thousand rupees per mensem and such salary shall be inclusive of the pension and pension equivalent of other forms of retirement benefits that he may be receiving. He will also be entitled to rent-free accommodation on the same basis as he was entitled to, as a serving Judge of the Supreme Court

(b) For the journeys performed by the retired Chief Justice in connection with the work of the Council, he shall be allowed to draw travelling allowance and daily allowance in accordance with the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, as if his functioning as the Chairman of the Council was his normal duty.

(3) The other two persons nominated as members under clause (a) of sub-section (2) of section 4 shall be paid a salary of three thousand rupees per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government Officer of the first grade.

Provided that if such person is appointed as Vice-Chairman, he shall be entitled to a special pay of two hundred and fifty rupees per mensem, in addition to his salary.

(4) The members elected under clause (b) and clause (c) of sub-section (2) of section 4, or any such member appointed as Chairman or Vice-Chairman under sub-section (3) of the said section, shall not be entitled to any salary or other remuneration, but shall be entitled only to travelling allowance and daily allowance admissible to Members of Parliament under the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), and the rules made thereunder

**5 Appointment of officers and other employees.**—(1) The officers and other employees, if any, required for the discharge of the functions conferred on the Council by or under the Ordinance, shall be made available by the Election Commission, and the Election Commission shall designate one of the officers to be the Registrar of the Council.

(2) The Registrar shall discharge such functions as may be assigned to him by the Council

(3) The terms and conditions of service of the officers, and other employees referred to in sub-rule (1) shall be the same as are applicable to officers and employees of corresponding categories under the Central Government

**6 Publication of the order of the Council in the Official Gazette.**—As soon as may be after the receipt of an authenticated copy of the decision of the Council under section 26 the Election Commission shall cause the order made by the Council under section 20 to be published in the Official Gazette

**7 Fee for petition.**—The petitioner shall, at the time of presenting the petition, deposit by a crossed demand draft drawn in favour of the Pay and Accounts Officer Election Commission and payable at the Indian Bank Connaught Circus, New Delhi a sum of twenty five rupees as the fee payable for the presentation of such petition, and the receipt in evidence of such deposit shall be filed with the Election Commission

**8 Manner of deposit.**—The sum required to be deposited by a petitioner as security for costs under sub-section (4), the further security for costs, if any, which he may be called upon to give under sub-section (5) and the security for costs which a person has to give to be joined as respondent to petition under sub-section (6), of section 8, shall be deposited by a crossed demand draft drawn in favour of the Pay and Accounts Officer Election Commission and payable at the Indian Bank Connaught Circus, New Delhi, and the receipt in evidence of such deposit shall be filed with the Election Commission

**9 Place of trial.**—The Council shall hold the trial at New Delhi

Provided that if the Council considers it necessary so to do having regard to the circumstances of the case or the convenience of the parties, it may also sit at such other place or places as it may deem fit

**10 Procedure before the Council.**—(1) Subject to the provisions of the Ordinance every petition shall be tried by the Council as nearly as may be in accordance with the procedure applicable under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) to the trial of suits

Provided that the Council shall have the discretion to refuse for reasons to be recorded in writing, to examine any witness or witnesses if it is of the opinion that evidence of such witness or witnesses is not material for the decision of the petition, or that the party tendering such witness or witness is doing so on frivolous grounds or with a view to delay the proceedings

(2) The provisions of the Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872), shall, subject to the provisions of the Ordinance, be deemed to apply in all respects to the trial of a petition

**11 Custody of records of the Council.**—The Registrar shall have the custody of the records of the Council and shall at the conclusion of trial of the petition by the Council, transfer the same to the Election Commission

**12 Form of affidavit to be filed with petition.**—The affidavit referred to in sub-section (1) of section 10 shall be sworn before a Magistrate of the first class or a notary or a Commissioner of Oaths and shall be in the Form annexed to these rules

**13 Application of certain provisions of the Conduct of Election Rules, 1961.**—For the purposes of the trial of a petition under the Ordinance rules 93 and 94 of the Conduct of Election Rules, 1961 made under the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) shall apply subject to the modification that for the references in those rules to a competent court, references to the Council shall be substituted

## ANNEXURE

## FORM OF AFFIDAVIT UNDER SECTION 10

[See rule 12]

I, . . . . . the petitioner in the accompanying petition calling in question the election of Shri/Shrimati . . . . . (respondent No . . . . . in the said petition) make solemn affirmation, oath and say—

- (a) that the statements made in paragraphs . . . of the accompanying petition about the commission of the corrupt practice of . . . and the particulars of such corrupt practice mentioned in paragraphs . . . of the same petition and in paragraphs . . . of the Schedule annexed thereto are true to my knowledge;
- (b) that the statements made in paragraphs . . . of the said petition about the commission of the corrupt practice of \* . . . and the particulars of such corrupt practice given in paragraphs . . . of the said petition and in paragraphs . . . of the Schedule annexed thereto are true to my information;
- (c)
- (d)
- etc.

Signature of deponent.

Solemnly affirmed/sworn by Shri/Shrimati . . . . .  
at . . . this . . . day of . . . 197 . . .

Before me,

Magistrate of the first class/  
Notary/Commissioner of Oaths

[No F. 23(18)/75-Leg.II]

K. K SUNDARAM, Secy.

\*Here specify the name of the corrupt practice

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1977

का०आ० 246 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विवादग्रस्त निर्वाचन (प्रधान मंत्री और अध्यक्ष) अध्यादेश, 1977 (1977 का 4) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम विवादग्रस्त निर्वाचन (प्रधान मंत्री और अध्यक्ष) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएँ.—इन नियमों में, जब तक कि सदस्यों से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अध्यक्ष” और “उपाध्यक्ष” से परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ख) “परिषद्” से धारा 4 के अधीन संयोजित परिषद् अभिप्रेत है,
- (ग) “निर्वाचन आयोग” से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) “प्रारूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है;
- (ङ) “सदस्य” से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है;
- (च) “अध्यादेश” से विवादग्रस्त निर्वाचन (प्रधान मंत्री और अध्यक्ष) अध्यादेश 1977 (1977 का 4) अभिप्रेत है;
- (छ) “राष्ट्रपति” से भारत का राष्ट्रपति अभिप्रेत है,
- (ज) “रजिस्ट्रार” से निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) “धारा” से अध्यादेश की धारा अभिप्रेत है, और
- (ञ) उन शब्दों और पदों के जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं किन्तु अध्यादेश में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अध्यादेश में हैं।

3. परिषद् के संयोजन के लिए कार्यवाही.—(1) धारा 8 के अधीन अर्जी पेश किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन आयोग, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् का संयोजन करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार को लिखित में ऐसी कार्यवाही करने के लिए निवेदन करेगा जैसी उस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में आवश्यक हो।

(2) धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों के नाम-निर्देशित किए जाने अथवा निर्वाचित किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति से ऐसे सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए निवेदन करेगी।

(3) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के नामों को केन्द्रीय सरकार निर्वाचन आयोग को संसूचित करेगी, और तदुपरि निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, परिषद् संयोजित करेगा।

4. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें.—(1) (क) यदि अध्यक्ष नियुक्ति किया जाने वाला व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का सेवारत मुख्य न्यायाधीपति है तो वह मुख्य न्यायाधीपति के प्राप्ति अर्हियों के अतिरिक्त, अध्यक्ष के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा और परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

(ख) परिषद् के कार्य के सम्बन्ध में सेवारत मुख्य न्यायाधीपति द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए वह उच्चतम न्यायालय न्यायाधीन (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेगा।

(2) (क) यदि अध्यक्ष नियुक्ति किया जाने वाला व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीपति है तो वह पाच हजार रुपए प्रति मास की दर से वेतन का हकदार होगा और ऐसे वेतन में पेशन तथा अन्य रूप में सेवा निवृत्त फायदों के समतुल्य पेशन भी, जो वह प्राप्त कर रहा हो, सम्मिलित होगी। वह निशुल्क वास सुविधा का भी उसी आधार पर हकदार होगा जिस पर वह उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीपति के रूप में हकदार था।

(ख) परिषद् के कार्य के सम्बन्ध में सेवा-निवृत्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए वह उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने के लिए अनुज्ञात होगा मानो परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना उसका प्रसामान्य कर्तव्य हो।

(3) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन सदस्यों के रूप में नाम-निर्देशित अन्य दोनों व्यक्तियों को तीन हजार रुपए प्रति मास वेतन दिया जाएगा और वे ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो प्रथम ग्रेड के सरकारी अधिकारियों को अनुज्ञात है :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो वह 250 रुपए प्रति मास के विशेष वेतन का, अपने वेतन के अतिरिक्त, हकदार होगा।

(4) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचित सदस्य, अथवा उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया ऐसा सदस्य, किसी भी वेतन या अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा, किन्तु वह केवल ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो संसद् सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30), और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदस्यों को अनुज्ञात है।

5. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.—(1) अध्यादेश के द्वारा या उसके अधीन परिषद् को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए यदि कोई अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों अपेक्षित हों, तो निर्वाचन आयोग उन्हें उपलब्ध करायेगा तथा निर्वाचन आयोग उन अधिकारियों में से एक को परिषद् के रजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित करेगा।

(2) रजिस्ट्रार ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो परिषद् द्वारा उसे समनुदेशित किए जाए।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को सेवा के निबंधन और शर्तों से होंगी जो केन्द्रीय सरकार के अधीन तत्सम्बन्धी प्रवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू है।

6. परिषद् के आदेश का राजपत्र में प्रकाशन.—धारा 2 के अधीन परिषद् के विनिश्चय की प्राधिकृत प्रति प्राप्त होने के पश्चात् यथा सम्भवशीघ्र निर्वाचन आयोग, धारा 20 के अधीन परिषद् के आदेश को राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।

7. अर्जों के लिए फीस —अर्जी उपस्थित करने समय अर्जीदार वेतन और लेखा अधिकारी, निर्वाचन आयोग के नाम में रेखांकित माग पत्र द्वारा, जोकि इण्डियन बैंक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली पर सदेय होगा, पच्चीस रुपए की राशि ऐसी अर्जी उपस्थित करने के लिए देय फीस के रूप में जमा करेगा तथा रकम जमा करने के साक्ष्य के रूप में रसीद को निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल करेगा।

8. जमा करने की रीति.—धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन खर्च के लिए प्रतिभूति के रूप में, खर्च के लिए ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में जिसे देने की अपेक्षा अर्जीदार से उपधारा (5) के अधीन की जाए तथा खर्च के लिए वह प्रतिभूति जोकि उपधारा (6) के अधीन, अर्जों में प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किए जाने के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा दी जानी हो, जमा किए जाने के लिए अपेक्षित राशि वेतन और लेखा अधिकारी निर्वाचन आयोग के नाम में रेखांकित माग-पत्र द्वारा जोकि इण्डियन बैंक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली पर देय होगा, जमा की जाएगी

और इस प्रकार जमा की गई रकम के साक्ष्य के रूप में रसीद निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल की जाएगी।

9. **विचारण का स्थान**—परिषद् अर्जी का विचारण नई दिल्ली में करेगी :

परन्तु यदि परिषद् मामले की परिस्थितियों को अथवा पक्षकारों की भुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह किसी ऐसे अन्य स्थान अथवा स्थानों पर विचारण भी कर सकती है जो वह ठीक समझे।

10. **परिषद् के समक्ष प्रक्रिया**—(1) अध्यादेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अर्जी का विचारण, जहां तक संभव हो सकता है, वहां तक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वादों के विचारण के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

परन्तु परिषद् को, ऐसे कारणों से जो लेखाबद्ध किए जाएंगे, किसी साक्षी या किन्हीं साक्षियों का परीक्षण करने से इन्कार करने का विवेकाधिकार होगा यदि उसकी यह राय है कि ऐसे साक्षी या साक्षियों का साक्ष्य अर्जी के विनिश्चय के लिए तत्वपूर्ण नहीं है अथवा ऐसे साक्षी या साक्षियों को प्रस्तुत करने वाला पक्षकार उन्हें निराधार कारणों से अथवा कार्यवाही में विषम्व करने की दृष्टि से प्रस्तुत कर रहा है।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंध, अध्यादेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अर्जी के विचारणों से सम्बन्धित सभी विषयों में लागू समझे जाएंगे।

11. **परिषद् के अभिलेखों की अभिरक्षा**—रजिस्ट्रार परिषद् के अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा और परिषद् द्वारा अर्जी के विचारणों की समाप्ति पर, उसे निर्वाचन आयोग को अन्तरित कर देगा।

12. **अर्जों के साथ दाखिल किये जाने वाले शपथपत्र का प्रारूप**—धारा 10 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शपथपत्र किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरीया शपथ आयुक्त के समक्ष शपथित किया जाएगा और इन नियमों से उपाबन्ध प्रारूप में होगा।

13. **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के कतिपय उपबंधों का लागू होना**—अध्यादेश के अधीन अर्जी के विचारण के प्रयोजनों के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), के अधीन बनाए गए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93 और नियम 94 इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि उन नियमों में मक्षम न्यायालय के प्रतिनिर्देशों के स्थान पर परिषद् के प्रतिनिदेश प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

**उपाबन्ध**

धारा 10 के अधीन शपथ-पत्र का प्रारूप

[नियम 12 देखिए]

इससे सलग्न अर्जी का अर्जीदार मैं,..... जिसने  
श्री/श्रीमती..... (उक्त अर्जी का को प्रत्यर्थी सं०.....)

के निर्वाचन पर आपत्ति की है, शपथपूर्वक और सत्यनिष्ठापूर्वक यह प्रतिज्ञान और कथन करता हूँ कि —

(क) संलग्न अर्जी के पैरा ..... में ..... सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण अपनाए जाने के बारे में दिए गए विवरण और उसी अर्जी के पैरा ..... में उल्लिखित तथा उसे उपाबद्ध अनुसूची के पैरा ..... में ऐसे भ्रष्ट आचरण के बारे में दी गई विशिष्टियाँ, मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं ;

(ख) संलग्न अर्जी के पैरा ..... में ..... \* सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण अपनाए जाने के बारे में दिए गए विवरण और उसी अर्जी के पैरा ..... में उल्लिखित तथा उससे उपाबद्ध अनुसूची के पैरा ..... में ऐसे भ्रष्ट आचरण के बारे में दी गई विशिष्टियाँ, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं ;

(ग)

(घ)

आदि

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

आज 197 के ..... के ..... वे दिन ..... स्थान पर श्री श्रीमती ..... द्वारा सत्य निष्ठापूर्वक, शपथपूर्वक मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नोटरी शपथ-आयुक्त

[सं. फा. 23(18)/75-विधायी-2]

के० के० सुन्दरम्, सचिव ।

\* यहाँ भ्रष्ट आचरण का नाम दीजिए ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977